



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1981/माघ 18, 1902

No. 43]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1981/MAGHA 18, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(विकास आयुक्त का कार्यालय)

(लघु उद्योग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1981

सा०का०नि० 51(ख).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लघु उद्योग संगठन [श्रेणी 1 और 2 (राजपत्रित पद)] भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) इ. नियमों का संक्षिप्त नाम लघु उद्योग संगठन [श्रेणी 1 और 2 (राजपत्रित पद)] भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लघु उद्योग संगठन [श्रेणी 1 और 2 (राजपत्रित पद)] भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची 6 की मद सं० 3 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:—

## अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
3 उप निदेशक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग "क", राजपत्रित	1100-50-1600 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
ल.गू नहीं होता	2 वर्ष	(1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा; और (2) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : सहायक निदेशक (श्रेणी 1) साधारण प्रशासनिक प्रभाग जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर सहायक निदेशक, ग्रेड 1 (साधारण प्रशासनिक प्रभाग) जिसने साधारण प्रशासनिक प्रभाग में सहायक निदेशक (श्रेणी 1) और (श्रेणी 2) की श्रेणी में कुल मिलाकर 8 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) जो सर्वप्रथम पद धारण कर रहे हैं; या (2) जिन्होंने 700—1200 रु० या इसके समतुल्य वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष सेवा की है; अथवा (3) जिन्होंने 650—1200 रु० या इसके समतुल्य वेतनमान के पदों पर 8 वर्ष की सेवा की है। (ख) जिनके पास प्रशासनिक, स्थापन और लेखा मामलों का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	1. वर्ग "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) : 1. अध्यक्ष/सबस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त विकास आयुक्त निदेशक (प्रशासन) —सबस्य 3. निदेशक (श्रेणी 1) —सदस्य 2. वर्ग "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) 1. संयुक्त विकास आयुक्त/निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष 2. निदेशक (श्रेणी 1) —सबस्य 3. समुचित प्रास्थिति का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी —सबस्य टिप्पण : पुष्टि से सम्बन्धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग इनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सबस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का ध्यान करते समय और इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[सं० 1/10/72—प्रशा० (राज०)]

महेन्द्र पाल गुप्त, उपनिदेशक (प्रशा०)

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Office of the Development Commissioner)

(Small Scale Industries)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 1981

**G.S.R. 51(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Small Scale Industry Organisation [Class I and Class II (Gazetted Posts)] Recruitment Rules, 1962, namely :—

1.(1) These rules may be called the Small Scale Industries Organisation [Class I and Class II (Gazetted Posts)] Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule VI to the Small Scale Industries Organisation [Class I and Class II (Gazetted posts)] Recruitment Rules, 1962, for item 3 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :

## SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
3. Deputy Director	6 General Central Service Group 'A' Gazetted.	Rs. 1100-50-1600	Selection	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.
8	9	10	11	12	13	
Not applicable.	2 years	(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation; and (ii) 50% by transfer on deputation.	Promotion: Assistant Director (Grade I) (General Administrative Division) with 5 years regular service in the grade failing which Assistant Director (Grade I) (General Administrative Division) with combined 8 years' regular service in the grade of Assistant Director Grade I and Grade II (General Administrative Division). Transfer on deputation: officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous post or (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; or (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent: and (b) possessing experience of administration, establishment and accounts matters. (Period of deputation shall not exceed 3 years.)	1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion ): 1. Chairman/Member, Union Public Service, Commission—Chairman 2. Joint Development Commissioner/Director (Administration) —Member. 3. Director (Grade I) —Member. 2. Group 'A' Departmental Promotion Committee : (for considering confirmation) : 1. Joint Development Commissioner/Director (Administration) —Chairman 2. Director (Grade I) —Member. 3. An officer of appropriate status belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe—Member Note : The proceedings of the Departmental promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	UPSC shall be consulted while making promotion, selecting an officer for appointment on deputation and amending/relaxing any of the provisions of these rules.	

[No. 1/10/72-Admn(G)]  
M.P. GUPTA, Dy. Dir. (Admn.)

